



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062025-263913
CG-DL-E-18062025-263913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 2025/ज्येष्ठ 27, 1947

No. 344]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 2025/JYAISTHA 27, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

सा.का.नि. 387(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल, साधारण ड्यूटी काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में-

(क) नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15. अधिवर्षिता - (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में, जिसको वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए गए नियमों के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त होगा:

परंतु यह कि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उप नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की विहित आयु से अधिक सेवा में विस्तार अनुदत्त नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुसूची में, उप निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, स्तंभ (7) की, मद (iii) में, "निम्नलिखित पूरा करता हों" शीर्षक के अधीन, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी; अर्थात्:

"भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार लागू होंगे।"

[फा. सं. सी-17/01/2025/ कार्मिक-गोपनीय /सीसुब]

कमलेश रविदास, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 830(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 1208(अ), तारीख 28 सितंबर, 2017 और अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 174 अ), तारीख 06 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

G.S.R. 387(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, namely: -

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015, -
(a) for rule 15, the following rule shall be substituted, namely: -

“15. Superannuation. - (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).”;

(b) in the Schedule, against serial number 2, relating to the post of Sub-Inspector, in column (7), in item (iii), under the heading “Must fulfill the following” for the existing entry, the following entry shall be substituted; namely: -

“Physical and medical standard for recruitment shall be applicable as per the scheme specified by the Central Government from time to time.”.

[F. No. C-17/01/2025/Pers-Confid/BSF]

KAMLESH RABIDAS, Under Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 830 (E), dated the 30th October, 2015, subsequently amendment *vide* notification number G.S.R. 1208 (E), dated the 28th September, 2017, and *vide* notification number G.S.R. 174(E), dated the 6th March, 2023.